

2384


2168



झारखण्ड JHARKHAND

D 048508

... 1908 की धारा
 धीन की धारा है। पञ्चमोय स्टाम्प अधिनियम
 399 की अनुसूची (III) क है
 धीन यथावत स्टाम्प सहित या स्टाम्प के
 विषयक या स्टाम्प मूलक उपबंधित नहीं है।




सही
 21/3/2018
 15/2013

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 21/03/सन् 2018 ई० को इस प्रकार सम्पन्न हुआ।

- 1) विक्रेता का नाम एवं पता :- संजय मिश्रा (PAN-AAACPM3631R, ADHAR No. 7862 8833 6140 & Mob. No. 9835160334) पिता-शम्भु नाथ मिश्रा, जाति-ब्राह्मण, पेशा-व्यापार, निवास स्थान-60, जुपीटर कॉर्पोरेटिव, हाउसिंग सोसाईटी ऑफ यारी रोड, बरसोवा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई-4000061, राष्ट्रीयता-भारतीय नागरिक।
- 2) क्रेता का नाम एवं पता :- श्रीमती पूजा जयसवाल (PAN-AKOPJ6095L, AADHAR No. 7410 6671 5797 & Mob. No. 8800394705) पति-श्री शैलेश चन्द्रा, जाति-जयसवाल बनिया, खाता...6.2...प्लॉट...पेशा-गृहिणी, निवास स्थान-फ्लैट नं०-बी-3, प्रतीक्षा अपार्टमेंट, पी०पी० कम्पाउण्ड, सुजाता सिनेमा के नजदीक, थाना-हिन्दपीढ़ी, जिला-राँची, राज्य-झारखण्ड, राष्ट्रीयता-भारतीय नागरिक।

Handwritten signatures and stamps on the right side of the document, including a circular stamp with the number 15/2013 and other illegible markings.

मार्ग दर्शिका पंजी त मिलान क्रमा
 जमीन का दर/डी०
 फर्कना मकान का दर/डी०
 पक्का मकान का दर/वर्ग फीट
 फ्लैट का दर/वर्ग फीट




सम्पत्ति का मूल्य
 150000/-
 रुपये

क्रमशःपेज/2

8015

6819118
19/3/18
354




Handwritten signature

Handwritten signature

21/3/2018



Sanjay Mishra
Sambha Nath Mishra
Andheri West Mumbai
Business



(2)

- 3) लेख्य प्रकार :- विक्रय-पत्र (सेल-डीड) हमेशा के लिए।
- 4) सम्पत्ति का मूल्य :- मोवलिंग 6,55,000/- (छः लाख पचपन) रूपये मात्र।
- 5) नाम जमीन्दार :- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल कार्यालय, कांके, राँची। सलाने मालगुजारी 1/- रूपया मात्र अलावे सेस।
- 6) सम्पत्ति का विवरण :- मवाजी रकबा-17 डीसमील भूमि हकीयत, रैयती, कायमी, खरीदगी एवं दखली जो वाके मौजा-बुकरू, थाना-कांके, थाना नं०-54, जिला-राँची में स्थित है, जो जिला निबंधन पदाधिकारी एवं जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, राँची से संबंधित है, जिसका विवरण निम्न है :-

खाता न०	प्लॉट न०	सब प्लॉट न०	विक्रय रकबा
62	54	54/12	05 डी०
62	54	54/12/ए	12 डी०
कुल रकबा			17 डी०


कुल विक्रय रकबा-सतरह डीसमील, दर्जा-आवासीय भूमि बिक्री कर रहे है, जिसे नक्शे में रंगकर लाल रंग से सब प्लॉट नम्बर-54/12 एवं सब प्लॉट नं०-54/12/ए के रूप में दर्शाया गया है, जो इस विक्रय-पत्र का अभिन्न अंग है, जिसका चौहद्दी एवं भूमि माप निम्नलिखित है :-

चौहद्दी

- उत्तर : आर०एस० प्लॉट नं०-62
दक्षिण : 20 फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता
पूरब : मो० नसीमुल्लागनी
पश्चिम : सब प्लॉट नं०-54/9, 10 एवं 11

भूमि का माप

- उत्तर की ओर पूरब से पश्चिम :- 37 फीट 06 इंच
दक्षिण की ओर पूरब से पश्चिम :- 57 फीट 00 इंच
पूरब की ओर उत्तर से दक्षिण :- 165 फीट 00 इंच
पश्चिम की ओर उत्तर से दक्षिण :- 161 फीट 00 इंच



क्रमशःपेज/3

P. M. S. M. S.

(3)

विदित हो कि मौजा-बुकरू, थाना-कांके, थाना नं०-54, जिला-राँची के अन्तर्गत खाता नं०-62, प्लॉट नं०-54, रकबा-1.47 एकड़ भूमि आर०एस० खतियान में बैजनाथ जालान वगैरह के नाम से कायमी दर्ज है।

यह भी विदित हो कि सभी खतियानी रैयतों के बीच आपसी बंटवारा हुआ एवं बंटवारा में उपरोक्त प्लॉट की भूमि बैजनाथ जालान को हिस्से में मिला, जिस पर वे अपने जीवनकाल तक शांतिपूर्ण दखलकार हुए।


यह भी विदित हो कि बैजनाथ जालान अपने पीछे एकमात्र पुत्र चन्डी प्रसाद जालान को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। पिता के स्वर्गवास के पश्चात् चन्डी प्रसाद जालान उपरोक्त भूमि को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त कर शांतिपूर्ण दखलकार हुए।

यह भी विदित हो कि चन्डी प्रसाद जालान अपने पीछे एकमात्र पुत्र कृष्ण कुमार जालान को छोड़कर स्वर्गवास हो गये। पिता के स्वर्गवास के पश्चात् चन्डी प्रसाद जालान उपरोक्त भूमि को उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त कर शांतिपूर्ण दखलकार हुए एवं दिनांक 08.06.2007 ई० को एक निबंधित सामान्य प्रतिनिधि-पत्र द्वारा उपरोक्त प्लॉट की भूमि को विक्रय करने एवं अन्य कार्य करने हेतु मो० सरफुद्दीन पिता-स्व० अब्दुल जब्बार को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किये, जो कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है, जिसका पावर सं०-IV 897, वर्ष-2007 ई० है।

यह भी विदित हो कि कृष्ण कुमार जालान द्वारा मनोनित प्रतिनिधि मो० सरफुद्दीन ने दिनांक 29.10.2007 ई० को एक निबंधित विक्रय-पत्र के द्वारा उपरोक्त प्लॉट नं०-54, सब प्लॉट नं०-54/12, रकबा-05 डीसमील भूमि श्री जीबू राय पिता-स्व० बबे लाल राय, निवास स्थान-धावन नगर, कांके रोड, थाना-गोन्दा, जिला-राँची को विक्रय कर दखल दे दिये, जो जिला अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है, जिसका पुस्तक सं०-1, जिल्द सं०-656, पृष्ठ सं०-489 से 506, दस्तावेज सं०-17054, वर्ष-2007 ई० है।

यह भी विदित हो कि जीबू राय उपरोक्त भूमि को क्रय करने के पश्चात् शांतिपूर्ण रूप से दखलकार हुए।

क्रमशःपेज/4



Page 2/4

(4)

यह भी विदित हो कि कृष्णा कुमार जालान पिता-स्व० चन्डी प्रसाद जालान द्वारा मनोनित प्रतिनिधि मो० सरफुद्दीन उपरोक्त प्लॉट नं०-54, सब प्लॉट नं०-54/12/ए, रकबा-12 डीसमील एवं श्री जीबू राय पिता-स्व० बबे लाल राय अपनी उपरोक्त खरीदगी प्लॉट नं०-54, सब प्लॉट नं०-54/12, रकबा-05 डीसमील, कुल रकबा-17 डीसमील भूमि दिनांक 08.05.2008 ई० को एक निबंधित विक्रय पत्र के द्वारा संजय मिश्रा (विक्रेता) को विक्रय कर दिये, जो कि जिला अवर निबंधन कार्यालय, राँची में निबंधित है, जिसका पुस्तक सं०-I, जिल्द सं०-282, पृष्ठ सं०-289 से 310, दस्तावेज सं०-8544/7512, वर्ष-2008 ई० है।


यह भी विदित हो कि संजय मिश्रा (विक्रेता) उपरोक्त भूमि को क्रय करने के पश्चात् अंचल कार्यालय, कांके, राँची में अपने नाम से दाखिल-खारिज कराकर एवं सरकारी मालगुजारी का भुगतान करते हुए शांतिपूर्ण रूप से दखलकार चले आ रहे हैं, जिसका दाखिल-खारिज वाद सं०-704 आर-27/2008-09 है। अंचल कार्यालय, कांके, राँची के पंजी-II के जिल्द सं०-04 के पृष्ठ सं०-83 में दर्ज है तथा रसीद सं०-1500117381 के द्वारा वर्ष-2017-18 तक लगान रसीद निर्गत है।

इस प्रकार उपरोक्त भूमि विक्रेता की खरीदगी भूमि है, जिस पर विक्रेता निर्विवाद एवं शांतिपूर्ण रूप से दखलकार चली आ रही है तथा विक्रेता अपनी खरीदगी प्लॉट की भूमि रकबा-17 डीसमील भूमि क्रेता को विक्रय कर रही है, जो प्रत्येक दृष्टिकोण से उचित एवं न्यायसंगत है।

संदर्भ

यह विदित हो कि इस वक्त विक्रेता को रुपये की अति आवश्यकता आ पड़ने के कारण उपरोक्त भूमि को विक्रेता बिक्री करने की बात लोगों के बीच रखे। बिक्री की बात सुनकर क्रेता ऊपर लिखे मूल्य मोबलिंग 6,55,000/- रुपये मात्र में खरीदने को तैयार हुए, जिसे विक्रेता सहर्ष स्वीकार किये, जिसका पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। अब क्रेता उपरोक्त वर्णित भूमि पर दखलकार होकर एवं रहकर परम सुखभोग किया करे इसपर विक्रेता एवं उनके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार का हक, दावा सरोकार नहीं है और न रहेगा।


क्रमशःपेज/5



Pin 2018

अतएव इस विक्रय-पत्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है कि :-

- 1) उक्त कारणों से और उक्त प्रतिफल की राशि मोबलिंग 6,55,000/- रुपये मात्र के बदले जिसकी प्राप्ति वसूली और अदायगी इस विक्रय-पत्र द्वारा विक्रेता स्वीकार वो सम्पुष्ट करते है कि अब और कुछ भी पाना शेष नही रहा। उपरोक्त भूमि को विक्रेता अपने तन-मन की स्वस्थावस्था में भलाई वो लाभ हित का विचार कर स्वतंत्रमन प्रसन्नचित से बिना किसी अन्य के डराव, धमकाव, बहलाव, फुसलाव या जोर-जबरदस्ती के सब प्रकार के ऋण-भार देन-पावना और बंधनो से मुक्त सत्यता एवं वैधता को पूर्णरूप एवं ईमानदारी से अभिपुष्ट, सम्पुष्ट, स्वीकृत पुर्नपुष्ट एवं प्रत्याभूत विक्रय को हस्तांतरित किया वो सौंप दिया।
- 2) यह घोषित किया जाता है कि विक्रीगत भूमि सब प्रकार से शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, निर्विरोध वो ऋण वगैरह से मुक्त है। यदि बाद भविष्य में उक्त सम्पत्ति में विक्रेता के स्वत्व हित हक वो दावा और दखल में कोई दोष पाया जाय, जिससे क्रेता को उक्त सम्पत्ति या उसके अंश से हाथ धोना पड़े या हानि उठानी पड़े तो ऐसी दशा में क्रेता को अधिकार होगा कि ऐसी कुल हानि और क्षति की भरपाई वे विक्रेता से लेंगे वो विक्रेता देगे।
- 3) अब क्रेता ऊपर लिखे भूमि को अपने अधिकार में लेकर अपने इच्छानुसार शांतिपूर्वक पुष्प वाटिका लगावे, कुआँ खोदवाये, चाहरदीवारी कराये या मकान बनावे वो जैसा चाहे अपने उपयोग एवं उपभोग में लावे और वंशानुगत इसको भोगकर लाभान्वित होते रहे तथा जरूरत पड़ने पर किसी अन्य के साथ विक्रय, बंधक, दान, लीज आदि करें इसमें विक्रेता अथवा उनके उत्तराधिकारियों को किसी प्रकार का कोई अनुरोध, विरोध नही है और न होगा, यदि कोई करे तो सरासर अन्याय वो गैर कानूनी होगा।
- 4) यह विदित हो कि क्रेता विक्रय-पत्र निबंधन के पश्चात अपना नाम झारखण्ड सरकार द्वारा संबंधित अंचल कार्यालय में अपने नाम से खिल-खारिज कराकर साल वो साल लगान अदा कर रसीद प्राप्त किया करें।



क्रमशःपेज/6

Rin 21/3/2018

(6)

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन खतियान के अनुसार सरकारी जमीन नहीं है और न सरकार के द्वारा अधिग्रहण सैनिक या असैनिक कार्यों के लिए किया गया है। यह वन सीमा से बाहर है तथा बी०सी०सी०एल० या ई०सी०एल० की भी जमीन नहीं है।

यह आदिवासी खाते की नहीं है और न आदिवासी से संबंधित है। जमीन सिलिंग से मुक्त है, जमीन मठ, मंदिर, गिरजा, सरना, मसना, हड़गड़ी या पहनई की नहीं है। जमीन भूमि घोटाला, पशुपालन घोटाला से संबंधित नहीं है। यह सरकारी या अर्द्ध सरकारी संस्थान में बंधक नहीं है।


नोट : विक्रेता सी०एन०टी० एक्ट के धारा-46 एवं 46 (6) के प्रयोजन हेतु अधिसूचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के सदस्य नहीं है।

अतः उपरोक्त बातों को विक्रेता पद वो पढ़वाकर समझ एवं बुझ लिये और साक्ष्य स्वरूप इस विक्रय-पत्र को आज अपने हस्ताक्षर से निम्नलिखित गवाहों के समक्ष निष्पादित वो प्रमाणित करते हैं जो कि समय पर काम आवे।


गवाहों का हस्ताक्षर :-


1) Rakesh Kumar
S/O Heta R. Singh
Chulwary
Kanku Road, Rn
9430148280

विक्रेता का हस्ताक्षर



21/3/2019

2) Shailesh Chand
S/O P.S. Chandra
B-3, Pratiksha अंजली
Apartment. P.A. Compound
Ranchi.


अंजली
महामा
कान्हापुरा



क्रमशःपेज/7



(7)

S.K.
Prakash Singh
21/3/2018

क्रेता का हस्ताक्षर, फोटो एवं बाएँ
हाथ के अंगुलियों का निशान




Prakash Singh
Prakash Singh

कनिष्ठ	अनामिका	मध्यमा	तर्जनी	अंगुली

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है, के बायें हाथ की सभी अंगुलियों का निशान मेरे द्वारा/मेरे समक्ष लिया गया है।

टंकक एवं कम्पोजिंगकर्ता



(कृष्णा कम्प्यूटर्स)

जगदीप चौधरी
प्रमाणित
21/3/2018

प्रारूपकर्ता

जगदीप चौधरी
प्रमाणित
21/3/2018

Prakash Singh



निबंधन विभाग, झारखंड
Ranchi


Token No.10Token Date: 3/21/2018

Party Name: puja jaiswal

Father/Husband Name:shailesh chandra
(VENDEE)

flat no-b-3, pratiksha apartment, p.p compound, near sujata cinema, hindpiri, ranchi


Deed Type: Sale Deed

Party Details	
Name :	Pooja Jaiswal
Gender :	F
DOB :	01-08-1986
C/o :	W/O: Shailesh Chandra
District :	Ranchi
House/Building No. :	B-3 PRATIKSHA APPARTMENT
Locality :	MAIN ROAD
Pincode :	834001
Post Office :	Ranchi G.P.O.
State :	Jharkhand
Village/Town/City :	Ranchi G.P.O.
Aadhaar No :	xxxxxxxx5797
Photo :	

Registering Officer

Party Signature

Operator's Signature



Pooja jaiswal

Pooja jaiswal

3/21/2018, 11:37 AM



निबंधन विभाग, झारखंड
रांची


Deed No.10 Token Date: 2018-03-21
Deed No./Year :2384/2168/2018
Deed Type: Sale Deed

SN	Party Details	Photo	Thumb
	sanjay mishra Father/Husband Name:sambhu nath mishra (VENDOR) 60 jupiter co-operative housing society of yari road, barsowa, andheri west, mumbai		
	puja jaiswal Father/Husband Name:shailesh chandra (VENDEE) flat no-b-3, pratiksha apartment, p.p compound, near sujata cinema, hindpiri, ranchi		
	RAKESH KUMAR Father/Husband Name:RAJESHWAR SINGH (Identifier) CHANDWE KANKE ROAD RANCHI		

Book No. I
 Volume: 216
 Page 315 To 364
 Deed No 2384/2168
 Year 2018
 Date 2018-03-21

Registering Officer

Signature of Operator



Page 2/24



निबंधन विभाग, झारखंड
Ranchi

जांच पर्या-सह घोषणा प्रपत्र (नियम 114)

Token Date/Time: 21/03/2018 11:19:22.

Type	Sale Deed	Presenter	sanjay mishra
Name & Address	60 Jupiter co-operative housing society of yari road, barsowa, andheri west, mumbai		
Doc. Value	655000	DOE	Total Pages 50
Document/Transaction Value	655000	Stamp Value 50	Book 1
Special Type		Serial /Deed No. /	CNO/PNO
Remarks / Other Details	sub plot no=54/12, 54/12/a		
Property Details:	App. ID	174733	e-Stamp Cert. No.

Anch No.	Wrd/Hik	Mauza	Kh. No.	Plot No.	Regl Vol	Regl Pno	Plot Type	Boundary North	Boundary South	Boundary East	Boundary West	H No.	ULB	Category	Area	Min. Value	
Kanke	54	6	Bukru	62	54	4	83	RSP	r.s plot no-62	20 ft wide prop road	MD NASIMUL GANI	sub plot no-54/9, 10 & 11			C_RES	5.00 Decimal	192500
Kanke	54	6	Bukru	62	54	4	83	RSP	r.s plot no-62	20 ft wide prop road	MD NASIMUL GANI	sub plot no-54/9, 10 & 11			C_RES	12.00 Decimal	462000

Other Property Details:

Party Details:

Party Type	Party Name	Father/Husband	Occup.	Relation	Caste	Gender	PAN/F 60	Mobile	Aadhar	Pres.Address	Perm. Address
VENDOR	sanjay mishra	sambhu nath mishra	business	पिता	ब्रह्मण	Male	AACPM3631R	xxxxxxxx34	xxxxxxxx6140	60 Jupiter co-operative housing society of yari road, barsowa, andheri west, mumbai	60 Jupiter co-operative housing society of yari road, barsowa, andheri west, mumbai
VENDEE	puja jaiswal	shailesh chandra	house wife	पति	बनीया	Female	AKOPJ6095L	xxxxxxxx05	xxxxxxxx5797	flat no-b-3, pratiksha apartment, p.p compound, near sujata cinema, hindpiri, ranchi	flat no-b-3, pratiksha apartment, p.p compound, near sujata cinema, hindpiri, ranchi
Identifier	RAKESH KUMAR	RAJESHWAR SINGH	BUSINESS	पिता		Male		xxxxxxxx80	xxxxxxxx7539	CHANDWE KANKE ROAD RANCHI	CHANDWE KANKE ROAD RANCHI

Fee Details:

SN.	Fee Name	Net Amount
1	SP	750.00
2	PR	0.94
3	LL	2.50
4	A1	0.00
5	I	5000.00
6	M	150.00
	Total	5903.44

Disclaimer: I hereby declare that all the contents of uploaded document and the original document are exactly same. And the information provided by me are true to itself.formation provided by me are true to itself. The details of property's holding number has been verified by me at the time of entry through alert generated by the system and I am satisfied with the verification and hence proceeding further for registration after seeing the alert.

[Handwritten Signature]

Notary Public
Reg.No.-1181/02
PHOTO COPY
ATTESTED
True Copy
Rakesh Kumar Sinha, Jharkhand (India)

Signature's of Executant & Claimant

परचुकरियाँ, दस्तावेज में अंकित तथ्यों के अनुरूप हैं।

दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर

प्रस्तुतकर्ता का हस्ताक्षर / डाटा इंटरि ऑपरेटर का हस्ताक्षर

निबंधन पूर्व सारांश में इंफुट फार्म के अनुरूप डाटा इंटरि की गई है।

परचुकरियाँ

[Handwritten Signature: Sanjay Mishra]

ने इस दस्तावेज के


[Handwritten Signature: Parin]

VILLAGE - BUKRU
 THANA - KANKE
 THANA - NO 5A
 DIST - RANCHI
 R.S. - PLOT NO 5A
 SUB - PLOT NO 5A/PART
 AREA - SHOWN IN RED WASH

AREA
 AC - DE
 0 - 17 MORE OR LESS



[Handwritten signature]
 21/3/2018




VIKASH SUMASINHA
 Notary Public
 Reg.No.-1181/02
 PHOTO COPY
 ATTESTED
 True Copy
 Ranchi, Jharkhand (India)

तसे का कर्माणि कर करानाज्ये
[Handwritten signature]
 21/3/2018

Authorized under Notaries Act-1952-
and Notaries Rules-1956 by
Government of Jharkhand, India

Reference No. 3/24
Date 19 MAR 2018



समक्ष,

नोटरी पब्लिक, राँची

शपथ-पत्र



मैं, पूजा जयसवाल पति-श्री शैलेश चन्द्रा, निवास स्थान-फ्लैट नं०-बी-3, प्रतीक्षा अपार्टमेंट, पी०पी० कम्पाउण्ड, सुजाता सिनेमा के नजदीक, थाना-हिन्दपीढ़ी, जिला-राँची, राज्य-झारखण्ड, राष्ट्रीयता-भारतीय नागरिक शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि निम्नलिखित बातें मेरी जानकारी में सत्य एवं सही हैं :-

- 1) यह कि मैं मौजा-बुकरू, थाना-कांके, थाना नं०-54, जिला-राँची के अन्तर्गत एक जमीन का निबंधन करा रही हूँ।
- 2) यह कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना संचिका सं०-13/नि०वि० (महिला शुल्क विमुक्ति)-13/2017 के तहत विक्रय विलेख पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क पर पूर्ण विमुक्ति दी गई है।
- 3) यह कि मैं महिला हूँ एवं मैंने इस निबंधन के पूर्व में इस छुट का कोई उपभोग नहीं किया है और न भविष्य में करूंगी।
- 4) यह कि उपरोक्त सभी बातें मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। गलत पाये जाने पर उसकी पूर्ण जवाबदेही मेरी होगी।

यह शपथ-पत्र मैंने नोटरी पब्लिक, राँची के समक्ष दिनांक/03/2018 को निष्पादन किया।

उपरोक्त शपथ-पत्र जिनकी पहचान
..... अधिवक्ता,
राँची ने किया, जो शपथकर्ता के
जानकारी में सत्य एवं सही है।

19 MAR 2018
[Signature]
शपथकर्ता का हस्ताक्षर
पहचानकर्ता
[Signature]
अधिवक्ता



NOTARY
RANCHI

[Handwritten signature]